

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 67]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 2017/फाल्गुन 4, 1938	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 376
No. 67]	DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 2017/PHALGUNA 4, 1938	[N.C.T.D. No. 376

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

भूमि एवं भवन विभाग

(भूमि अधिग्रहण शाखा)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 22 फरवरी, 2017

सं.फा. 8/2/16/एल एण्ड बी/एल ए/15557.— जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10(अ) की उपधारा (1) के खंड (ड) के अंतर्गत जारी अधिसूचना नंबर 8/2/16/एल एण्ड बी/एल ए/10647 दिनांक 28/8/2015 के द्वारा जन कार्यों के लिए गांव ककरोला तथा सम्बद्धों क्षेत्रों में अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के अनुसार इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा प्राथमिक अधिसूचना के जारी होने से 12 महीने के अंदर जारी होनी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत घोषणा जारी करने के लिये सम्बंधित जिले से समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा धारा 19 की अधिसूचना का समय 6 माह के लिये माननीय उप राज्यपाल दिल्ली का आदेश पर बढ़ा दिया था।

और जबकि जिला दक्षिण पश्चिम से यह अवधि और छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इसलिए, अब उपयुक्त सरकार, जिले के अनुरोध पर विचार करते हुए तथा उक्त भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा 7 के अंतर्गत घोषणा जारी करने की अवधि को छह माह बढ़ाने, अर्थात् 27 अगस्त 2017 तक की अनुमति प्रदान करती है।

LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(LAND ACQUISITION BRANCH)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 22nd February, 2017

No. F. 8/2/16/L&B/LA/15557.— Whereas, a Notification under clause (e) of sub- section 1 of section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), was issued vide notification No. 8/2/16/L&B/LA/10647 dated. 28/8/2015 for acquisition of land for public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) generated from the inhabitants of the Kakrola, Village and adjoining areas.

And whereas, as per sub-section (7) of section 19 of the said Act, the declaration u/s 19 of this Act is to be issued within a period of 12 months from the date of publication of preliminary notification.

And whereas, a proposal was received from concerned district for extension of time in issuance for declaration u/s 19 of the Act, which was approved by Lt. Governor of Delhi and time for declaration was extended for Six (6) months, and whereas a proposal has again received from District(South West) for another extension of time by Six(6) months.

Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District and in the exercise of powers conferred under proviso of Sub- Section 7 of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, is pleased to extend the time for issuance of declaration under section 19 of the said Act by a period of six months i.e. upto 27th August 2017.

सं.फा. 8/2/16/एल एंड बी/एल ए/15558.— जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10अ की उपधारा (1) के खंड (ड) के अंतर्गत जारी अधिसूचना नंबर 8/2/16/एल एंड बी/एल ए/10643 दिनांक 28/8/2015 के द्वारा जन कार्यों के लिए गांव ताजपुर खुर्द तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के अनुसार इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा प्राथमिक अधिसूचना के जारी होने से 12 महीने के अंदर जारी होनी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत घोषणा जारी करने के लिये सम्बंधित जिले से समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा धारा 19 की अधिसूचना का समय 6 माह के लिये माननीय उप राज्यपाल दिल्ली का आदेश पर बढ़ा दिया था। और जबकि जिला दक्षिण पश्चिम से यह अवधि और छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इसलिए, अब उपयुक्त सरकार, जिले के अनुरोध पर विचार करते हुए तथा उक्त भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा 7 के अंतर्गत घोषणा जारी करने की अवधि को छह माह बढ़ाने, अर्थात् 27 अगस्त 2017 तक की अनुमति प्रदान करती है।

No. F.8/2/16/L&B/LA/15558.— Whereas, a Notification under clause (e) of sub- section 1 of section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), was issued vide notification No. 8/2/16/L&B/LA/10643 dated. 28/8/2015 for acquisition of land for

public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) generated from the inhabitants of the Tajpur Khurd Village and adjoining areas .

And whereas, as per sub-section (7) of section 19 of the said Act, the declaration u/s 19 of this Act is to be issued within a period of 12 months from the date of publication of preliminary notification,

And whereas, a proposal was received from concerned district for extension of time in issuance for declaration u/s 19 of the Act, which was approved by Lt. Governor of Delhi and time for declaration was extended for Six (6) months, and whereas a proposal was again received from District(South West) for another extension of time by Six(6) months.

Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District and in the exercise of powers conferred under proviso of sub- section 7 of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, is pleased to extend the time for issuance of declaration under section 19 of the said Act by a period of six months i.e. upto 27th August 2017.

सं.फा. 8/2/16/एल एण्ड बी/एल ए/15559.— जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10अ की उपधारा (1) के खंड (ड) के अंतर्गत जारी अधिसूचना नंबर 8/2/16/एल एंड बी/एल ए/10641 दिनांक 28/8/2015 के द्वारा जन कार्यों के लिए गांव विजवासन तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के अनुसार इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा प्राथमिक अधिसूचना के जारी होने से 12 महीने के अंदर जारी होनी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत घोषणा जारी करने के लिये सम्बंधित जिले से समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा धारा 19 की अधिसूचना का समय 6 माह के लिये माननीय उप राज्यपाल दिल्ली का आदेश पर बढ़ा दिया था। और जबकि जिला दक्षिण पश्चिम से यह अवधि और छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इसलिए, अब उपयुक्त सरकार, जिले के अनुरोध पर विचार करते हुए तथा उक्त भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा 7 के अंतर्गत घोषणा जारी करने की अवधि को छह माह बढ़ाने, अर्थात् 27 अगस्त 2017 तक की अनुमति प्रदान करती है।

No. F.8/2/16/L&B/LA/15559.— Whereas, a Notification under clause (e) of sub- section 1 of section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), was issued vide notification No. 8/2/16/L&B/LA/10641 dated. 28/8/2015 for acquisition of land for public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) generated from the inhabitants of the Bijwasan Village and adjoining areas .

And whereas, as per sub-section (7) of section 19 of the said Act, the declaration u/s 19 of this Act is to be issued within a period of 12 months from the date of publication of preliminary notification.

And whereas, a proposal was received from concerned district for extension of time in issuance for declaration u/s 19 of the Act, which was approved by Lt. Governor of Delhi and time for declaration was extended for Six (6) months, and whereas a proposal was again received from District(South West) for another extension of time by Six(6) months.

Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District and in the exercise of powers conferred under proviso of sub- section 7 of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, is pleased to extend the time for issuance of declaration under section 19 of the said Act by a period of six months i.e. upto 27th August 2017.

सं.फा. 8/2/16/एल एण्ड बी/एल ए/15560.— जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10अ की उपधारा (1) के खंड (ड) के अंतर्गत जारी अधिसूचना नंबर 8/2/16/एल एंड बी/एल ए/10649 दिनांक 28/8/2015 के द्वारा जन कार्यों के लिए गांव

काजीपुर तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के अनुसार इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा प्राथमिक अधिसूचना के जारी होने से 12 महीने के अंदर जारी होनी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत घोषणा जारी करने के लिये सम्बंधित जिले से समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा धारा 19 की अधिसूचना का समय 6 माह के लिये माननीय उप राज्यपाल दिल्ली का आदेश पर बढ़ा दिया था। और जबकि जिला दक्षिण पश्चिम से यह अवधि और छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इसलिए, अब उपयुक्त सरकार, जिले के अनुरोध पर विचार करते हुए तथा उक्त भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा 7 के अंतर्गत घोषणा जारी करने की अवधि को छह माह बढ़ाने, अर्थात् 27 अगस्त 2017 तक की अनुमति प्रदान करती है।

No. F.8/2/16/L&B/LA/15560.— Whereas, a Notification under clause (e) of sub- section 1 of section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), was issued vide notification No. 8/2/16/L&B/LA/10649 dated. 28/8/2015 for acquisition of land for public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) generated from the inhabitants of the Kazipur Village and adjoining areas .

And Whereas, as per sub-section (7) of section 19 of the said Act, the declaration u/s 19 of this Act is to be issued within a period of 12 months from the date of publication of preliminary notification.

And whereas, a proposal was received from concerned district for extension of time in issuance for declaration u/s 19 of the Act, which was approved by Lt. Governor of Delhi and time for declaration was extended for Six (6) months, and whereas a proposal was again received from District(South West) for another extension of time by Six(6) months.

Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District and in the exercise of powers conferred under proviso of sub- section 7 of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, is pleased to extend the time for issuance of declaration under section 19 of the said Act by a period of six months i.e. upto 27th August 2017.

सं.फा. 8/2/16/एल एंड बी/एल ए/15561.— जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 10अ की उपधारा (1) के खंड (ड) के अंतर्गत जारी अधिसूचना नंबर 8/2/16/एल एंड बी/एल ए/10645 दिनांक 28/8/2015 के द्वारा जन कार्यों के लिए गांव कैर तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अपशिष्ट जल शोधक संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (7) के अनुसार इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन घोषणा प्राथमिक अधिसूचना के जारी होने से 12 महीने के अंदर जारी होनी थी।

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत घोषणा जारी करने के लिये सम्बंधित जिले से समय बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था तथा धारा 19 की अधिसूचना का समय 6 माह के लिये माननीय उप राज्यपाल दिल्ली का आदेश पर बढ़ा दिया था। और जबकि जिला दक्षिण पश्चिम से यह अवधि और छह माह बढ़ाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

इसलिए, अब उपयुक्त सरकार, जिले के अनुरोध पर विचार करते हुए तथा उक्त भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना का उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 उपधारा 7 के अंतर्गत घोषणा जारी करने की अवधि को छह माह बढ़ाने, अर्थात् 27 अगस्त 2017 तक की अनुमति प्रदान करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के,

आदेश और उनके नाम पर,

आलोक शर्मा, उप सचिव (भूमि एवं भवन)

No. F.8/2/16/L&B/LA/15561.— Whereas, a Notification under clause (e) of sub- section 1 of section 10-A of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013), was issued vide notification No. 8/2/16/L&B/LA/10649 dated. 28/8/2015 for acquisition of land for public purpose namely for construction of Waste Water Treatment Plant (WWTP) generated from the inhabitants of the Kair Village and adjoining areas .

And whereas, as per sub-section (7) of section 19 of the said Act, the declaration u/s 19 of this Act is to be issued within a period of 12 months from the date of publication of preliminary notification.

And whereas, a proposal was received from concerned district for extension of time in issuance for declaration u/s 19 of the Act, which was approved by Lt. Governor of Delhi and time for declaration was extended for Six (6) months, and whereas a proposal was again received from District(South West) for another extension of time by Six(6) months.

Now, therefore, the appropriate government after considering the request of District and in the exercise of powers conferred under proviso of Sub- Section 7 of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, is pleased to extend the time for issuance of declaration under section 19 of the said Act by a period of six months i.e. upto 27th August 2017.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor,
National Capital Territory of Delhi,

ALOK SHARMA, Dy. Secy (L&B)